



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 563]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 20, 2006/कार्तिक 29, 1928

No. 563]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 20, 2006/KARTIKA 29, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2006

सं. 25/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 716(अ).—हालांकि, केन्द्र सरकार, उत्पाद शुल्क नामतः (i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अंतर्गत उद्ग्राह्य उत्पाद शुल्क, (ii) वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) के अंतर्गत उद्ग्राह्य अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, तथा (iii) वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अंतर्गत उद्ग्राह्य विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को लगाने (अथवा उसे नहीं लगाने सहित) के संबंध में सामान्यतया प्रचलित प्रक्रिया से सहमत है, परन्तु 5% इथेनोल मिश्रित पेट्रोल जो 95% मोटर स्पिरिट (सामान्यतया पेट्रोल के नाम से प्रचलित) तथा 5% इथेनोल का मिश्रण है और (जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची की शीर्ष सं. 27.10 के अंतर्गत आने वाले भारतीय मानक विशिष्टिकरण ब्यूरो 2796 के अनुरूप है, पर शुल्क जो उत्पाद शुल्क के रूप में उद्ग्राह्य है, उक्त प्रक्रिया के अनुसार 1 जुलाई, 2004 से 3 अगस्त, 2004 तक की अवधि के दौरान उत्पाद शुल्क नहीं लिया जा रहा था।

इसलिए, अब, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 111 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा यह निदेश देती है कि उक्त प्रक्रिया के बावजूद 5% इथेनोल उपर्युक्त अवधि जिसके दौरान उत्पाद शुल्क नहीं दिया गया के लिए मिश्रित ऐसे पेट्रोल पर कुल उत्पाद शुल्क देय नहीं होगा यदि प्रक्रिया के अनुसार 95% मोटर स्पिरिट (सामान्यतया पेट्रोल के रूप में

प्रचलित) पर उपर्युक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया है और 5% इथेनोल मिश्रित पेट्रोल प्राप्त करने के लिए 5% इथेनोल मिलाया गया था।

व्याख्या : इस छूट के लिए “उपयुक्त उत्पाद शुल्क” का अर्थ होगा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत उद्ग्राह्य उत्पाद शुल्क, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की धारा 111 के अंतर्गत उद्ग्राह्य अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अंतर्गत उद्ग्राह्य विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जो तत्काल प्रभावी छूट अधिसूचना के साथ पठित होगा।

[फा. सं. 83/7/2004-सी एक्स-3]

दिलीप गोयल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2006

No. 25/2006-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 716(E).—Whereas, the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duties of excise (including non-levy thereof) namely (i) the duties of excise leviable under Section 3 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), (ii) the additional duty of excise leviable under Section 111 of the Finance (No. 2) Act, 1998 (21 of 1998), and (iii) the special additional excise duty leviable under Section 147 of the

Finance Act, 2002 (20 of 2002), on 5% ethanol, blended petrol that is a blend consisting by volume, of 95% Motor spirit (commonly known as petrol) and 5% ethanol, and confirming to Bureau of Indian Standards specification 2796, falling under heading No. 27.10 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986)-which was liable to duties of excise but according to the said practice, the duties of excise were not being levied during the period commencing on the 1st day of July, 2004 and ending with the 3rd day of August, 2004.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 11C of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) the Central Government hereby directs that the whole of the duties of excise payable under the aforesaid Acts, on such 5% ethanol blended petrol but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of such 5% ethanol blended petrol on which said duties of excise were not being levied during the period aforesaid, in accordance with the said practice only if the appropriate duties of excise

have been paid on 95% Motor spirit (commonly known as petrol) and 5% ethanol used for blending to obtain such 5% ethanol blended petrol.

Explanation : For the purposes of this exemption, "appropriate duties of excise" shall mean the duties of excise leviable under the First Schedule and Second Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), the additional duty of excise leviable under Section 111 of the Finance (No. 2) Act, 1998 (21 of 1998), and the special additional excise duty leviable under Section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002), read with any relevant exemption notification for the time being in force.

[F. No. 83/7/2004-CX-3]

DILIP GOYAL, Under Secy.